

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 22.11.2022

हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार , घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद (थाना कोतवाली नगर)

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम रूपापुर में कार सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर देने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 997/22 धारा 302/323 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम में कल दिनांक 21.11.2022 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह मय हमराह व स्वाट टीम प्रतापगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के भूपियामऊ चौराहे के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 01 अभियुक्त सुदीप शर्मा उर्फ सौरभ शर्मा पुत्र मानिक चंद्र शर्मा निवासी ग्राम रूपापुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अवैध तमंचा 32 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद किया गया (अल्टो कार नं यूपी 32 सीवी 0023 मैरून रंग) । अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण -

पूछताछ पर बताया कि दिनांक 17.11.2022 को मैं अपने साथी 1.गौरव शर्मा पुत्र कृष्ण शर्मा उर्फ KC शर्मा निवासी रूपापुर थाना कोतवाली नगर 2.आशीष उर्फ अनुज ओझा पुत्र अरुण कुमार ओझा निवासी PWD आफिस के बगल प्रतापगढ़ 3.ओम पण्डित पुत्र अज्ञात निवासी सराय खाण्डेय राय थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर मृतक की गोली मारकर हत्या किये थे । बरामद पिस्टल के संबंध में पूछने पर बताया कि यह वही पिस्टल है जिससे हम लोगो ने मृतक को गोली मारी थी क्योंकि मृतक ने मेरे दादा से 2.50 करोड़ रुपये की पुश्तैनी जमीन को 3.50 लाख रुपये में लिखवा दी । जिस पर हम लोगो ने गोली मारकर इसी बरामद हुई गाड़ी से भागे थे , मैं पुलिस से बचने के लिये अपने साथी अनुज के साथ प्रयागराज जाने के लिये उसका इंतजार कर रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया ।

बरामदगी- बरामदशुदा 01 अदद तमंचा 32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर अभियुक्त द्वारा हत्या किये जाने में प्रयुक्त चार पहिया बरामदशुदा वाहन अल्टो कार नं० युपी 32 सीवी 0023 रंग मैरून व 2000/- रुपया चिटबन्दी में

पुलिस टीम – 1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह मय हमराह उ०नि० राधेश्याम ,उ०नि० सतीश कुमार, का० कुशल यादव , का० अमित यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2. स्वाट टीम प्रभारी उ०नि० श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह का० राजेन्द्र कुमार, का० श्रीराम , का० अरबिन्द दुबे ,का०सत्यम यादव ।